



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 70 राँची, सोमवार,

3 फरवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

अधिसूचना

20 जनवरी, 2020

संख्या-14/जा0नि0-03-08/2015 का० 366-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग के संकल्प सं0-8137, दिनांक-09.10.2019 द्वारा सुमंडल/मंडल को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 122 पर दर्ज सूदी जाति के प्रकोष्ठ में शौन्डीक के बाद समावेशित किया गया है।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक-जाति-142/2019-416/पि०, दिनांक-01.11.2019 द्वारा "सुमंडल/मंडल" का अंग्रेजी हिज्जे "SUMANDAL/MANDAL" अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है। अतः अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-122 पर सूदी जाति के प्रकोष्ठ में शौन्डीक के बाद समावेशित सुमंडल/मंडल जाति का अंग्रेजी रूप "SUMANDAL/MANDAL" के रूप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनीत कुमार,
सरकार के अवर सचिव।